

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 अप्रैल 2019—चैत्र 21, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2019

फा. क्र. 2400-2019-इक्कीस-ब(दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के 04 जिलों (अशोकनगर, डिण्डोरी, बड़वानी, एवं नीमच) के कलेक्टरों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारी के रूप में लोकसभा निर्वाचन 2019 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कार्यालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-अशोकनगर मध्यप्रदेश

क्र. लो.स.निर्वा.-2019-1108

अशोकनगर, दिनांक 26 मार्च 2019

लोकसभा निर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

जिले का नाम :- अशोकनगर (म.प्र.)

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा /सर्वग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
1	श्री एस. के. त्रिपाठी	भूमि संरक्षण अधिकारी	भूमि संरक्षण कार्यालय, ईसागढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री करन सिंह परमार	क्षेत्र संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग, अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
3	श्री बी. एस. गुप्ता	प्रधान वैज्ञानिक प्रमुख	कृषि विज्ञान केन्द्र, अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
4	डॉ. व्ही. के. जैन	वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकीय	कृषि विज्ञान केन्द्र, अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
5	श्री रत्नेश कुमार पुरोहित	कार्यपालन यंत्री	राजघाट विद्युत, चन्देरी	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
6	श्री मोहन प्रसाद भार्गव	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, ईसागढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
7	श्री अफसर खां पटान	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, चन्देरी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
8	श्री अजय कुमार जैन	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, मुगावली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
9	श्री सन्तोष कुमार शुक्ला	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, मुगावली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
10	श्री महेश कुमार शर्मा	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, मुगावली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
11	श्री विजय यादव	सी.डी.पी.ओ.	महिला बाल विकास अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
12	श्री अजय धाकड़	समग्र सुस्था विस्तार अधिकारी	जनपद पंचायत अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
13	श्री पी. सी. तिवारी	उपयंत्री	ई.एण्ड.एम.पी.डब्ल्यू. चंदेरी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
14	श्री हरिसिंह रघुवंशी	सहायक प्रबंधक	म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधिकरण (पी.आई.यू.-2) अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
15	श्री सौरभ शर्मा	उपयंत्री	जनपद पंचायत, मुगावली	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
16	श्री राजेश नरेन्द्र नीखरा	उपयंत्री	जनपद पंचायत, अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
17	श्री वी. पी. झा	उपयंत्री	सिंचाई विभाग राजघाट नहर-1, चन्देरी	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
18	श्री मानू प्रकाश हुकोलिया	उपयंत्री	जनपद पंचायत, ईसागढ़	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
19	श्री सीताराम चौहान	व्याख्याता विद्युत	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
20	श्री रमेश मौर्य	व्याख्याता ई.टी.	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
21	श्री आकाश सिंह किरार	व्याख्याता ई.टी.	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
22	श्री अखिलेश कुमार जैन	प्राध्यापक	शासकीय नेहरू महाविद्यालय, अशोकनगर	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
23	श्री जयवंत सिंह वर्मा	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला बाल विकास अशोकनगर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

डॉ. मंजू शर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-डिण्डौरी, मध्यप्रदेश

क्र. निर्वाचन-2019-535

डिण्डौरी, दिनांक 04 अप्रैल 2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी, की शक्तियों प्रदत्त बाबद प्रस्तावित नए सेक्टर आफिसर के नाम की सूची जिले का नाम- डिण्डौरी

सं.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सदगी का विवरण	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है
1	श्री रवि बर्मन	प्रबंधक	जन अभियान परिषद् डिण्डौरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
2	श्री ओ.पी. सिरसे	जिला योजना अधिकारी	जिला योजना डिण्डौरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
3	श्री राममिलन सिंह	जिला आपूर्ति अधिकारी	जिला आपूर्ति कार्यालय डिण्डौरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
4	श्री अमित विश्वकर्मा	कार्या.पालन यंत्री	म.प्र.रा.विद्युत म. डिण्डौरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
5	सुश्री वर्षा झारिया	मुख्य कार्या. अधिकारी	जनपद पंचायत डिण्डौरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
6	श्री डी.एस. बघेल	कार्या.पालन यंत्री	ग्र.या.सेवा. विभाग डिण्डौरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
7	श्री प्रकाश चंद चौरसिया	सहा.यंत्री	जनपद पंचायत समनापुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
8	श्री जी.बारमाटे	लेखा अधिकारी	जिला पंचायत डिण्डौरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
9	श्री एस.एस.धुर्वे	कार्या.पालन यंत्री	लो.नि.वि.विभाग डिण्डौरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
10	श्री जे.एस.कुसरे	वि.शि.अधिकारी	कार्या.वि.शि.अधिकारी समनापुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
11	श्री आर.जी.श्रीवास्तव	सहा.यंत्री	ग्र.या.से.बजाम	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
12	श्री अखिलेश कुमार शर्मा	अनु.वि.अधिकारी	अनु.वि.अधिकारी वन डिण्डौरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
13	श्री मदनसिंह परस्ते	वि.शि.अधिकारी	कार्या.वि.शि.अधिकारी करंजिया	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी
14	श्री विजय कुमार तिवारी	कार्या.पालन यंत्री	जल संसाधन विभाग डिण्डौरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला डिण्डौरी

सुरभि गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-बड़वानी, मध्यप्रदेश

क्र. 1105-भा.निर्वा.-लो.सभा-2019

बड़वानी, दिनांक 02 अप्रैल 2019

लोकसभा निर्वाचन-2019						
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं प्रदत्त करने जायत प्रस्ताव						
जिले का नाम :- बड़वानी						
क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सर्वे का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति एवं प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	संबन्धित क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दीनानिह कलेश	सहायक यंत्री	ग्रह निर्माण मंडल बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187	9
2	डॉ. भूषेन्द्र मुजालदा	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	आयुष विभाग मालवड	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187	14
3	डॉ. बाबोराम सेनानी	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	आयुष विभाग मालवन वरला	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187	15
4	डॉ. ब्रुष वास्करे	पशु चि.सहा.सर्जन	शामकीय पशु चिकित्सालय धनोरा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187	20
5	श्री रत्नती. मनोरिया	उपयंत्री	एन.वी.डी.ए. बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187	रिजर्व
6	श्री सुभष झंकार	होम्योपथी चिकित्सा अधिकारी	होम्योपथी चिकित्सा विभाग बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187	रिजर्व
7	श्री अमर एस. पूरी	प्रबंधक	राज्य दुग्ध संघ बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187	रिजर्व
8	श्री पी. एस. सेंगर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जिला पंचायत बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 187	रिजर्व
9	श्री आर के महाजन	क्षेत्रीय अधिकारी	प्रबंधक सह संचालक डेयरी जिला बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 188	13
10	श्री जगदीश तोमर	कार्यपालन यंत्री	लोअर गौड नहर संभाग राजपुर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 188	15
11	श्री जे.पी. गुहा	मुख्य नगर फालेका अधिकारी	नगर परिषद् राजपुर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 188	19
12	श्री डॉ. एस परमार	सहायक यंत्री	नर्मदा विकास संभाग क्र. 11 बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 188	21
13	श्री बी एस चौहान	सहायक यंत्री	नर्मदा विकास संभाग क्र. 11 बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 188	22
14	श्री अतिथि चौहान	सहायक यंत्री	नर्मदा विकास संभाग क्र. 11 बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 188	23
15	श्री छगनलाल रावत	सहायक प्रबंधक	मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जिला पंचायत बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 188	24
16	श्री गोविन्द प्रसाद उपाध्याय	अनुवेभागीय अधिकारी	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण सरदार सरोवर परियोजना पूर्वार्ध संभाग लो.नि.वि	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 188	25
17	डॉ. संतोष मिश्रा	होम्योपथी चिकित्सा अधिकारी	शामकीय होम्योपथी औषधालय राजपुर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 188	26

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सर्वे का नाम	सेवा/सर्वे का नाम	सेवा/सर्वे का नाम	सेवा/सर्वे का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
18	श्री बालासिंह सास्त्रिया	सहायक सचालक	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 188	28
19	श्री अब्दुल वसीम शेख	मलेरिया अधिकारी	जिला मलेरिया अधिकारी बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 188	29
20	श्री पंकज मडराह	सहायक चर्ची	संभागीय परियोजना विद्युत यांत्रिकी लो.नि.वि. पीआईयू बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 188	30
21	श्री अमरदास सेनानी	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर परिषद् अंजड	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 188	रिजर्व
22	श्री सुरसिंह बघेल	मुख्यकार्यपालन अधिकारी	जिला पंचायत बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 188	रिजर्व
23	श्री हरसिंह ठाकुर	सहायक जनसंरक्षक	उप वन संडल पाटी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 189	2
24	श्रीमती अनोला शिन्दे	प्रभारी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास पानसमल	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 189	3
25	श्री सुनंदा काम्बले	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत निवाली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 189	17
26	श्री नीरज शुप्ता	उपयन्त्री	नगर परिषद् पानसमल	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 189	18
27	श्री भीका सिसोदिया	एस ए.डी.ओ.	कृषि विभाग निवाली	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 189	20
28	डॉ. यशवंत मास्तीव	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	आयुष विभाग मोरगुन	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 189	23
29	श्री विनोद सोनी	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 189	29
30	श्री मानसिंह शेट्टर	एस एस डी ओ	उद्यानिकी विभाग पानसमल	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 189	रिजर्व
31	डॉ. विजय गारे	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	आयुष विभाग भंडगोन पानसमल	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 189	रिजर्व
32	डॉ. भुरलाल मोरे	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	आयुष विभाग पाइछा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 189	रिजर्व
33	श्री रविन्द्र कुमार बोस्ले	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	नगर परिषद् पानसमल	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 190	रिजर्व
34	श्री आर.एन. जमोरिया	प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी (लो. नि. वि.)	कार्यपालन यंत्री नर्मदा घाटी वि. प्राधि. सरदार सरोवर बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 190	9
35	श्री शंकरलाल मडलोड	वन क्षेत्रपाल पाटी	वन विभाग पाटी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र	क्रमांक 190	14

1	2	3	4	5	6	7
अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सदस्य का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिका दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जमा प्रस्तावित है।	संस्करण क्रमांक	
36 श्री ए एस अछलिया	सहायक यंत्री	समदा विकास समिति, बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 190	21	
37 श्री सुनील द्रविड़	परियोजना अधिकारी एवं	जिला पंचायत बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 190	32	
38 श्री ओर के सिंगार	सहायक संचालक कृषि	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 190	34	
39 श्री राजेंद्र कुमार दीक्षित	ऑटोरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कार्यालय जिला पंचायत बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 190	36	
40 कुमारी वंदना पवार	सहायक मत्स्य अधिकारी	मछुआ कल्याण मत्स्य विभाग बड़वानी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 190	रिजर्व	

लोकसभा निर्वाचन 2019

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

जिले का नाम :- बड़वानी

निर्वाचन व्यवस्था हेतु

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सदस्य का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
निर्वाचन व्यवस्था निगरानी दल					
1	श्री. रायमल बिल्लोर	सहायक प्रशासकीय अधिकारी	भारत जीवन निगम संघवा	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
2	श्री. धीरज कुमार	समांतीय लेख अधिकारी	नर्मदा विकास समिति काठमांडू	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
3	श्री. सुरेश खटेर	प्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक पानवेल्ल	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
4	श्री. शैलेन्द्र महादुर सिंह	समांतीय लेख अधिकारी	लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 190 के लिए
उपनिर्देश					
5	श्री. आय. एस. गोरिया	अनुविभागीय अधिकारी	वन विभाग बरला	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
6	श्री. अजय परसाई	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन सडल संघवा	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
7	श्री. लदकिशोर परिहार	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन सडल धनारा	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
8	श्री. नरेंद्र सिंह परिहार	वन क्षेत्रपाल	परिक्षेत्र अधिकारी बरला	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
9	श्री. उमा शंकर सोनी	वनपाल राजपुर	वनपाल राजपुर	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
10	श्री. गुलाब नबी शेख	वन क्षेत्रपाल	परिक्षेत्र अधिकारी बरला	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
11	श्री. विजय मोस	वन क्षेत्रपाल	परिक्षेत्र अधिकारी राजपुर	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
12	श्री. कैलाशचन्द्र गन्धारी	वन क्षेत्रपाल	परिक्षेत्र अधिकारी नारायणवाडी	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
13	श्री. भूख खान	परिक्षेत्र सहायक	वन विभाग निवासी	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
14	श्री. महेश मण्डलौई	उप यंत्री	जनपद पंचायत पाटी	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 190 के लिए
15	श्री. सुभाष पाटील	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन विभाग पाटी	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 190 के लिए
16	श्री. मनोष चौहान	उप यंत्री	जनपद पंचायत पाटी	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 190 के लिए
स्थानिक निगरानी टीम					
17	श्री. कै. आर. बी. सिंह	होमगार्ड डिस्ट्रीक्ट कमाण्डेंट बड़वानी	बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
18	श्री. अर्जुन सिंह चौहान	वनपाल अधिकारी संघवा	संघवा	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
19	श्री. सुरेश बघेल	सहायक उप निरीक्षक	कृ.उ.म.स. संघवा	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
20	श्री. कालुपाम कथवाह	उपवन क्षेत्रपाल	वन विभाग बरला	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
21	श्री. सुरेंद्र कुमार पचौर	वनपाल संघवा	संघवा	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
22	श्री. विरेंद्र महाल	वनक्षेत्रपाल बरला	बरला	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
23	श्री. नरेंद्रसिंह परिहार	वन परिक्षेत्र अधिकारी बरला	बरला	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
24	श्री. मुकेश पाठक	सहायक उपनिरीक्षक कृषि उपज मंडी संघवा	संघवा	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
25	श्री. गिरधारी लाल लुविठेडी	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वन विभाग बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
26	श्री. जवन कुमार मिश्र	सहायक प्रबंधक	आ.जा.सं.स. संस्था बाबडड	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए

27	श्री जी.एस.लाल	द्वितीय सहकारी निरीक्षक सहायक आयुक्त सहकारिता जिला बड़वानी	बड़वानी	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
28	श्री जी.एस.चाहान	द्वितीय सहकारी निरीक्षक सहायक आयुक्त सहकारिता जिला बड़वानी	बड़वानी	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 187 के लिए
29	श्री जय प्रकाश चौबे	पंचायत समन्वयक	जनपद पंचायत राजपुर	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
30	श्री सुरेन्द्र ठाकुर	सहायक विकास विस्तार अधि.	जनपद पंचायत राजपुर	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
31	श्री अशोक दुबे	शा.सहा.कृषि विस्तार अधि.	कृषि विभाग राजपुर	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
32	श्री प्रकाश पाटील	सहायक आपूर्ति अधिकारी राजपुर	राजपुर	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
33	श्री काशीराम द्वितीय	सहायक उप निरीक्षक क.उ.म.स.अजड	क.उ.म.स.अजड	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
34	श्री मुकेश खान	वनपाल	वन विभाग राजपुर	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
35	श्री अशोक काग	सहायक निरीक्षक सहायक आयुक्त बड़वानी	बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
36	श्री राजेन्द्र चाहान	बीट गाई	वन विभाग देवना	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
37	श्री सजय मेहरा	बीट गाई	वन विभाग टीकरी	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
38	श्री हेमन्त मण्डलौड़	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी टीकरी	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
39	श्री गोपाल मुकाती	सहायक उप निरीक्षक क.उ.म.स.अजड	क.उ.म.स.अजड	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
40	श्री कैलाश वास्करले	सहायक उप निरीक्षक क.उ.म.स.अजड	क.उ.म.स.अजड	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
41	श्री योगेन्द्र सोलंकी	समूह सामाजिक सुरक्षा निरीक्षक अधिकारी	जनपद पंचायत टीकरी	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
42	श्री बलीराम पगारे	सहायक मकसिबकार	खनिज विभाग बड़वानी	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
43	श्री सुरेशचंद्र शठेर	सहायक उप निरीक्षक क.उ.म.स.अजड	क.उ.म.स.अजड	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
44	श्री गेदुसिंग बाबुसिंग	परि. सहा.	वन विभाग राजपुर	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 188 के लिए
45	श्री बट्टू सिंह मण्डलौड़	शा. कृषि विस्तार अधि.	कृषि विभाग पानसेमल	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
46	डॉ. श्री मनोज चौहान	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी	सोहदुल बड़वानी	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
47	श्री रमिन्द्र पाटीदार	बोली	जनपद पंचायत पानसेमल	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
48	श्री राजेश मण्डलौड़	उपयंत्री	जनपद पंचायत पानसेमल	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
49	श्री मालसिंह शेहर	उद्यान अधिकारक	उद्यानिकी विभाग नाहर पानसेमल	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
50	श्री विनोद बई	सहायक राजस्व निरीक्षक	नगर परिषद पानसेमल	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
51	श्री राजेन्द्र सोनिस		कृषि उपज मण्डी खनिया	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
52	श्री देवेन्द्र चौहान	उपयंत्री	लौ.स्वा.या. उप खण्ड पानसेमल	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
53	श्री भीला मण्डलौड़	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	पानसेमल	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
54	श्री अशोक शर्मा	उप अंकेक्षण	सहायक आयुक्त सहकारीज विभाग	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
55	श्री महेश डावर	सामूहिक उद्यान विस्तार अधिकारी	विकास खण्ड संधा	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
56	श्री दशरथ दोडिया	मण्डी निरीक्षक	कृषि उपज मण्डी खनिया	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
57	श्री दिलीप सिंह मेहरोत्रा	सहायक उपनिरीक्षक	कृषि उपज मंडी खनिया	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
58	श्री सजय मालवीय	वन क्षेत्रपाल	परिक्षेत्र अधि. पानसेमल	तृतीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए
59	श्री भुरमन बामन	कनिष्ठ आपूर्ति अधि.	पानसेमल	द्वितीय श्रेणी	विधान सभा क्रमांक 189 के लिए

60	श्री बलराम जेठरे	शा. कृ. वि. अधि.	कृषि विभाग बलराम	द्वितीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 189 के लिए
61	श्री जगदीश वर्मा	सहा. मण्डल उपनिरीक्षक	कृषि उपज मण्डल बलराम	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 189 के लिए
62	श्री वंदना कुंदल	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	बडवानी	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए
63	श्री शिवा मेहरा	परिक्षेक सहायक	यनमण्डल बडवानी	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए
64	श्री राहुल शर्मा	उपसत्री	प्रधानमंत्री सड़क बडवानी	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए
65	श्री अशोक कुमार सिंह	डीप्टी प्रभारी	राजघाट परिक्षेक बडवानी	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए
66	श्री लवीना मोनकी	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	बडवानी	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए
67	श्री अर्पित नारायण	उपसत्री	जनपद पंचायत पार्टी	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए
68	श्री शमसुल परमार	उपसत्री	जनपद पंचायत पार्टी	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए
69	श्री राजेन्द्र सिरसाठ	सहकारी निरीक्षक सहा. आयुक्त	सहायक विभाग बडवानी	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए
70	श्री सुरेश चन्द्र पाटीदार	उपसत्री	नगर पालिका बडवानी	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए
71	श्री व्ही.एस. मारी	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	बडवानी	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए
72	श्री पंचालाल डवर	वनपाल	बोकसटा	तृतीय श्रेणी	विभाग सभा क्रमांक 190 के लिए

कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-नीमच, मध्यप्रदेश

क्र. 1460-भा.निर्वा.-वि.का.दण्डा.-2019

नीमच, दिनांक 02 अप्रैल 2019

लोक सभा निर्वाचन-2019

विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

जिले का नाम :- नीमच

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
1	श्री योगेश शर्मा	एजीएम	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री प्रेम नारायण गुप्ता	सब इंजिनियर	पीडब्लूडी, नीमच	पीडब्लूडी विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
3	श्रीमति आशा जैन	सहायक प्राध्यापक	पीजी कॉलेज नीमच	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए
4	श्रीमति डॉ. रश्मि हरित	सहा.प्राध्यापक	शा. कन्या जाजू महा.वि.नीमच	उच्च शिक्षा विभाग	संपूर्ण जिले के लिए

कृपया उपरोक्तानुसार नियुक्त सेक्टर ऑफिसर/निगरानी दल/उडनदस्ता/स्थैतिक निगरानी टीम को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने का कष्ट करे।